[illegible]

[illegible] ॥ अ हे यम न ॥ नमः भगवते पुष्प [illegible] वा जा य त धा ता काय

१ [illegible] न म स्य [illegible] हे तु धा य ॥ [illegible] पुष्प [illegible] पुष्पा [illegible] पुष्पा [illegible]

[illegible] व पु षा व कि [illegible] ना [illegible] गु बु या न मो १ [illegible]

[illegible] वं व आ [illegible] स्वाहा [illegible] ॐ थ [illegible] न [illegible]

नो [illegible] ण स्वा [illegible] मि [illegible] द यान [illegible]

तथागतस्तुरि षकसम स्त्रियहूँ जलमलंखनलाय॥ हनंनमलाकाय॥ ॐ
श्री स्वाहा २ कायवि[illegible]धन स्वाहा पूजार लमलंखन हामं पूजा लपिंय
ॐ नमो भगवते पुष्पकेतुराजाय तथागताया २ हूँ नं समप्रकृ सवुद्धाय त
द्यथा ॐ पुष्पे २ महापुष्पे श्रीपुष्पे पुष्पोद्भवे पुष्पसंभवे पुष्पावकीर्णे
स्वाहा [illegible] पूलिवाय धनस्वानकायाजो [illegible] पानुंगलपियकं
[illegible] वाकं॥ ॐ स्पू ॐ किष्टवज्र आमन हूँ हनं स्वानकासं जुजो वाला

खजावाहिदिन॥ वाकं॥ ॐ सर्वपापानपनय हूँ २ स्वानकासंनिलमद्धय ॐ
मणिधमि वज्रिनि महाप्रतिसरे ज्ज्र २ मानूँ २ हूँ २ स्वाहा चीगमधुलसन
संथमनतिय ॐ वज्रतिलक ठः २ स्वाहा मेधुलमलंखनवाजवासंजा कि
स्वानकासं मधुलमलायकंनय॥ ॐ वज्रोदके हूँ ॐ वज्ररागमय हूँ ॐ वज्र
रमय हूँ मूलखस्व सर्वतथागतविशुद्धि हूँ तु स्वाहा सानं[illegible]यममनूनाथं
नीलं वनीलं वममाफ्नं ओंमि शुद्धं पिपिलिकानापनयनं वीर्य्यक्रियाहस्थ

पनंध्यानंनजमभकविनकनगंप्रङ्गमूलखाह्नलाहिमापानमिकाखता
वलरमहत्वामूनिर्मगुलंरुवउकनकवर्गसर्वलौविनिमूकंसूनमनञ
विनिष्टश्वनुवजिविनिकाकिंधनकनकुस्तद्विनजायनताअवंभमूग
नवलगहंरस्मिनीकायकंमाक्षत्वाउँमूलखसर्वनथागनरषिहुना।
रधिष्टनुस्वाहास्नानकहोलिनसंपूयकंनालना।उँवज्रार्कविमलस्वाहा
धनस्नानकासमहुलमवाजउयकंवलिकंकासनय।उँवजसत्वसर्ववि

घ्रांनूक्षदयहुँ।महुलनमस्नानवाया।उँहमालामेरक्षमनवनमदधू
उँजीमक्षमनवनमदधूसंउँहूंक्षवमक्षभनवनमदधूहुउानवायउँ
यंपूर्वविधिलायवनमजउँसेउँनंजंम्वाद्वीपायवनमथडानउँलंरूपः
नरमताववनमरडाम उँवंउलनक्षूनूवनमजउाक्रूनम उँयाउद्वीपायवं
नमजउँयधूकूनमउँवाउपद्वीपायवनमरडाथधूकूनम उँस्लाउप
द्वीपायवनमरडाकधूकूनमउँवाउपद्वीपायवनमहेउानउँयगज

नल्लायनम जउाम ॐ नपूनूयनल्लायनम थउान नसून्वनल्लायनम खउाम
वम्मुी नल्लायनम जउाकूनम याखक्क नल्लायनम जउाथपूकूनम नावज्रनल्ला
यनम खउाथपूकूनम ॐ नाम गीनल्लायनम खउाक्षथूकूनम ॐ आ सर्व्वनीः
क्षद्दियनम थउान ॐ वँवनायनमः हउान ॐ गुंसूर्य्यायनम दथूसंवय ॐ
सूर्ग्रीवज्रगुनूवनम पंचपहानपूजा सिकं ॐ वज्रगंध्य स्वाहा स्वा वज्रपुष्प
स्वाहा धूप ॐ वज्रधूप स्वाहा दीप ॐ वज्रदीप स्वाहा नैवेद्य ॐ वज्रनैवेद्य स्वाः

हा नाय ॐ वज्रलाजाय स्वाहा आकिस्वानलं खमथूसंम गुलंस नयहाय कं
वउनलंमयंमनूसूक्ष सिंहापक्ष्मा हिरं नानानलसमाकी … ददनू लनः
साधिनः गुनूयावूद्धधर्म्मयाः संघयाश्चनरथेववः निर्य्यानयामिलावनस
पूर्व्व नलमधुलं कालन ॥ आकिकासंहजलयंवान ॐ सूः हूँ श्रीमनवज्रम
नसनगुनूवनवनदक मलाय हूँ समिविक्षनाप्रलमनं कनायनमा हूँः नम
स्कंउनमानम स्मलाहं त्वांनम स्यामिश्रीगुनूनाथंप्रसिद्धम गुनूयाकिन

॥ ॥यस्यप्रसादकिरनैस्फुरितात्मतत्वंनत्वसमनंपञ्जिकना पहता
न्धकानाय॰ पश्यंतुनाविनादनी॥ सविनासमूर्खेवस्फुरीनेनमस्क्रितिनियंगुनूला
स्फुनाय थनगुनूयातनमस्कानथायथकितन नमोबुद्धायगुनूवनेनमोधर्मायतारनेन
नमोसंघायमहर्लमत्रीयाउतनतंनमो सर्वबुद्धंनेमस्यामिधर्मंचजिनलाषितं
संघंचमिलसंपदंनत्त्रयंनमोस्तुते नत्वत्रयंमयागनतंसमनसंप्रतिक्षिभामघः
शुनूमादजगनूपुष्पबुद्धवाक्येदशमम शुवाक्येगननंयामिबुद्धधर्मचगास्था

ल्मंबाधिविल्कनामघस्वपनार्थप्रसिद्धमः उत्पादयामिपनमंवलबाधिविन
निहन्तुयामिशूरसर्वसत्वानांश्रूष्टांतनिध्यांवलवाधिवाधिकाकृत्याएवहंजगता
हिताय दर्शनांसर्वपापानांपुष्पानांचानूमादिनांकृताप्रनासंकनिष्याभिश्चर्याहं
गिकपापधंचउपोषामयावालनजत्किंचिस्यापमागमप्रकृत्याउचतावद्यप्रहं
वल्यावद्यमवचनतत्रयंदगयामपधनाथानांमगतस्थितः कृतांजलिदुःखवलीत
प्रनीप्रत्यपूनपूनस्त्रस्त्रमसूत्रतनप्रतिगर्ह्णंतुनायका नपनकंविजंनाथंनकं

तवं पूनर्मया। यथात तथागतायाज्ञा र्य्यासूहृन्मे सम्यक्संवुद्धस्तेन तवूद्धवक्तवा
ज्ञानक्षिपन्ध्यक्लितत्रूमलंमूलंयज्ञांगिकंऊँनिकायेजस्वगावायल्लकज्ञंयया
धर्मेतयामस्त्रियथतत्कूसलंमूलंजितिस्थमनूरुनायांसम्यक्तंवाध्योतथाहपनि
भामीतंपविनामयामि। तथानमादनसंमानकालंलोकस्पृक्ः खंवसुखादयंव
हतुंवकतुंवमदास्तुभक्तिस्तमप्रकाभक्तयतथ्येवच। दृष्टः सानूस्तिमागः
मोवायद्दृष्टकथयोगसूपागतोवा। सर्वप्रकानंजगताहिताय। कूर्यां मजेश्रेसूखसं

हिताय वलिसलंस्वनय॥ ॐ क्लीँ ज्ञावमनंप्रतिष्ठस्वाहा तताय कानतवा सूमत्तु
लंतहूपतिनंजातासूत्रिनमत्तुलं हुँ कानतजातधिमत्तुवूलिकायांसूतामत
हांऊनतत्रहकादिपतिपूनितंवुँ ॐ जिँ खहूँ ला माँ पाँ त्राँ वँ कानजाताप्रंचकः
मतपंचवुद्धिपंरूपंपञ्चत ॐ इन्द्रादिसूत्रालाकपालादनेयत थनवलिसल्ल
नवाय ॐ ऊँ इन्द्राय स्वाहा। ॐ जमाय स्वाहा। ॐ वरुनाय स्वाहा। ॐ कुवेराय स्वाहा
ॐ अग्नय स्वाहाः ॐ नैऋत्य स्वाहाः ॐ वायुव्य स्वाहाः ॐ ईशानाय स्वाहाः ॐ ऊर्द्धः

ब्रह्मणे स्वाहा: ॐ सूर्याग्रहाधिपतये स्वाहा: ॐ चन्द्रानक्षत्राधिपतये स्वाहा
ॐ सर्व्वप्रतिये स्वाहा: ॐ नागेभ्य स्वाहा: ॐ यक्षेभ्य स्वाहा: ॐ भूतेभ्य स्वाहा
ॐ सर्वेदृष्टदिग्लोकपालेभ्य स्वाहा पञ्चमहापूजायाय॥ लास्याकाय ॐ व
ज्रवीणे हूं· ॐ वज्रवंशे त्रां· ॐ वज्रमृदंगे ह्रीं· ॐ वज्रमुरजे अः· ॐ वज्रलास्ये हूं
ॐ वज्रमाले त्रां। ॐ वज्रगीते ह्रीं· ॐ वज्रनृत्ये अः· ॐ वज्रपुष्पे हूं: ॐ वज्रधूपे त्रां
ॐ वज्रआलोके ह्रीं: ॐ वज्रगन्धे अः· ॐ वज्रदर्पणे हूं· ॐ नरवज्रे· ॐ

पन्तु वज्रे ह्रीं· ॐ धर्मधातु वज्रे अः वज्रपूयकस्यावाधुंस्थानाथाय ॐ हूं स्वाहा
ॐ हां स्वाहा: वज्रमण्डलसंप्राप्त वज्रवन्तमनूत्तं वज्रधर्मश्रहिनवज्रकर्म कुल
रूप वज्रस्वपालपूयक ट किंज हूं २ ॐ दीवमहावीना लोकपालाम हर्द्धि
कर्किलयं मिदमक्षाय विघ्नहन्तानमस्तु ते किंकर्णकिन्द्रविय क्षिप्रासंबुद्धविम्बं
दिवसकलधर्मानामिपाविन्हलरक्षमंत्रीयंवाननूपंमिलशिमनूतवंमश्रुधावं
नगमंक्रुदगुनिपं कुलिनवजीतंहीमनाथं विघ्नंहनं हननूपंनिहनहवह

यंपंचमूर्त्ति प्रणम्य बलि सजाकि स्वान लंख सथुं स्वाहा यके ॥ॐ॥ ब्रह्मादिवजी सह
देवसंघेह निमंत्र यक्रं तु बलि वृष्टिकृत्य नजमनेज्ञ यह्रूप निश्चमापां त्र
मि वायूश्च धनाधिपतिश्च उर्द्ध्व ब्रह्मा कपितामह श्च देवासमेत्य तु व द यव
नाम श्वह ना धनाद्युष्मगा ले समता प्रतिग्रहित्व कनिवेदयं तु स्वकस्वका
स्थेव दिशा मूल मा ८ गर क्रान्तु स्था समगना मतं नाः सपूजदाना सह स्व रूसंगर्ह
ॐ दवलि पूर्यं च गान्धर्व यंप च विलपनं च: गरक्रान्तु तुजन्तु पिवंतु चदं:

तु ॥ॐ॥ दंच कर्म सह लंक्रमन्तु बालक· हाकनं स्वाहा यके ॐ नमो रत्नत्रयायः वज्र
वज्रपानय मवज्रक्रोधाय दुष्टकठ्ठ हेन वाय समि मूलपर्न गुपाम ग हि
ह स्वायसू मग कूह्यु लिख ष: खाहि २ भिक्षु २ हन २ गर्जे २ विस्फोट्य २ सर्व्व वि
घ्न विनायकानां महागणपति जिवितान्तकाराय हूं २ फट् २ स्वाहा बलि सालन
॥ पञ्चउपहारपूजाः लास्यकाय ॐ वज्रवीन हूं· ॐ वज्रवंशत्रा· ॐ वज्रमृदंग
ह्रीं। ॐ वज्रमूर्जक्रू· ॐ वज्रलास्य हूं· ॐ वज्रमालजां· ॐ वज्रगीतक्षीं· ॐ वज्र

नृत्यस्व॰ ॐ वज्रपुष्पे हूं॰ ॐ वज्रधूपे त्रां॰ ॐ वज्रालोकिनि ह्रीः ॐ वज्रगन्धे खं॰
ॐ वज्रादर्शने हूं ॐ नृत्यवज्रे त्रां॰ ॐ पनशुवज्रे ह्रीः ॐ धर्मधातुवज्रे खं **कायधर्म**
ज्ञानाश्रय ॐ हूं स्वाहा॰ ॐ हा स्वाहा वज्रसत्वसंग्रहवज्रानलमनूलनवज्रधर्मे
ग्रहि नवज्रकर्मे कुलस्वव **वज्रसत्वपालपूयके** टाकिं ज हूं १ ॐ इन्द्रादिवमहावीनाली
पालामहर्द्धिक किलयंति दमज्ञा हवि ग्रहकानमस्तु **फिगनविंहविय** विग्रांसं
वृद्धविवंदिवसकलधनाना मिपाविन्दूलखं मेत्रीयंवानन्नूपं मिलक्षिमनूकनंमं

स्थापंवगमस्तुं दद्युनूपं कुलिनवजी संहीमनाथं विहनं स्नननूपं निहनलवलयं
पंकरमूर्लिंप्रशंस **पवपहानपूजायाय॥ वलिमहावनास्नानमय** स्वभावशुद्धास
र्वधमाः॰ स्वभावशुद्धो हूं॰ सून्यता ज्ञानवज्रस्वभावात्मकोहं **धूनय** ॐ भगवनश्री
मूमकसनविद्यानाजनमस्तुनं कडं मिछ मिननाथं महलं कनूस्वात्मकोहं मि
थानाज्ञमूकं पार्थयूथाकं पूजनायवननमभगनस्य भगवनप्रसाद कंतुमहलं
वज्रधूपनिर्यातयामि ॐ वज्रधूपं प्रतिछ स्वाहा **आकिकासंहाजलपवान** सूत्रमः

सहस्रंऊर्ध्वंसहस्रंजिविनंवमसमयंसर्वदेवानांहविश्राहंनसंमयसूर्यम
दिवसंहयमालेकादिनरूनगंन्धपानामेवदिर्घमवनसर्वबुद्धंनिमंत्रयामी
पूजायाय· धामगुलथिल ॐवज्रादकंहूं· वज्रअमयहूंः वज्रतुमयहूंः सुलाध
सुवर्णऊनवानस्वाहा सिंन्हलंनिवक ॐदंगपनमंगन्धंविचित्रसुरसाहि
गंवज्रसिंधूरतिलकरूषनस्वाहा ऊंकामय ॐवज्रलंकालपूजामघसमूः
डरूनगंसमयहूंवज्रदिव्यवालस्वाहा सांस्कृय स्वस्तिवाक्यनूतांबुद्धः स्वस्ति

देवामहल्ककाकास्वस्तिसर्वानिरूनानिसर्वकालंदिसंउवः बुद्धपुण्यानुभावन
देवतानामगनवयायार्थसमवप्रगसर्वार्थदिसमन्थांस्वस्तिवाक्यपनः
शान्तुस्वस्तिवाचउपनस्वस्तिवेवर्विनामार्गोस्वस्तिप्रस्थागमपूव स्वस्तिना
शीस्वस्तिदिवा· स्वस्तिमध्यदिनस्थितसर्वत्रस्वस्तिवाशान्तुमागवेवांपापमाग
मसर्वसत्वासर्वप्राणा सर्वभूताचकेवलाः सर्वेवेसुखिनसंतुसर्वेसंतुनिः
वास्याया सर्वेरेडानिपस्यंन्तुमाकश्चित्पापमागम ज्ञानिहरूनानिसमागता

निश्चिताति हस्मां वर्ण्ण वान निज कुर्द्धं तमेत्री समतं प्रजाम्ह दे वाश्च नाशी वश्चनं
स्तुधर्म्म नैवद्यस्थ यममय स्थय ॐ वज्र नैवद्य स्वाहा नैविद्य सर्व्व संयुक्तं खाद्यः
हार्यं सम विनंवर्ण्ण गन्धनमपनददामि पनमेल्पकाप्रतिग्रह्य त्वया प्रसत्य वज्र
नैवद्य स्वाहा धूपस्थाय ॐ नमो भगवति वीनवीनश्चनाय मह[illegible] ल्या मिन संनि
लायजनाम कृष्ठधनाय इच्छा कपालीत्र रक्षनम्रखाय। सहस्र[illegible] जलासनाय
पवनुपासप्तीमूल खड्गांग धारिणे। व्याघ्रचर्मान्वर धनाय। महाधूमांधका

नायव पूजाय ॐ हूं हूं स्वाहा मनविय नत्रा विना स्माव रूनलक्ष्म खानना दी
पानविरूपादपमा हेनं प्रदिपा हनमो हझाला कादि प्रमानालज्रयं मितत्रं
ॐ वज्र दीपनिर्य्याजयामि हावन ॐ वज्र दीपं प्रतिच्छ स्वाहा [illegible] पूजायाय ॐ
धर्मा हेतुप्रभवा हेतु तेस्वां तथागत ह्यवदत् तेषां च यो निरोध एवं वादि महाश्रवणं
ज्ञाकिस्वांल खमथूसं पूजायाय ॐ भूकोलम् रख सर्व्व धर्मा क्षां माधं नूपंनल्ला सा:
गिनजापूस्किं कृत्रूखक्षिच्छ स्वाहा ज्ञाकिं पूजायाय महत्त्री कुमारल्हनाय वाधिस

त्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय गं धूनदक्ष्मायुसंप्रक्षेषयात्मानं थन लि
देवपूजायाय स्नाना स्वांनय ॐ स्वभावसुद्धा सर्वधर्मा स्वभावसुद्धोहं सून्यता ज्ञा
नवज्र स्वभावात्मकोहं धूंनय ॐ भगवन इत्यादि ज्ञानि क्याताहाज्ञलप सूयमित्यादि
स्नानयाय ॐ अस्मंगल सकल सत्वाहृदि थिन स्यासर्वात्मकस्य. वन इत्यादि धामहुल
थिल ॐ वज्रादर्क हूं इत्यादि ज्ञअंकानय ॐ वस्त्रालंगनन पूजा इत्यादि सिन्धुलंतियके
ॐ वज्रसिंधुन मिल घलघ स्वाहा स्वांजापयाय देव.यान स्नान च्छाय ॐ स्वस्तिवाकृ

इत्यादि समयच्छाय ॐ वनेविघ्न इत्यादि धाना च्छाय ॐ नमो भगवते विन विलम्बनाय इत्यादि
मनविय नज्ञविनात्मा इत्यादि नायजानाओ नायज्ञपयाय पूजायाय ॐ धर्मो इत्यादि ज्ञानि स्वां
लंखवसधूसं पूजायाय सुकाल मूरव इत्यादि ज्ञानिं पूजायाय मंश्री कुमाल लनाय इत्यादि
थन जापयाय वज्रपमा पूजायाय वज्रगन्धे स्वाहा. वज्रपुष्पे स्वाहा. वज्रधूप स्वाहा वज्र
दीप स्वाहा. वज्रनैवद्य स्वाहा. वज्राजाय स्वाहा. ॐ गसुध सर्वधर्मा नाओग सूख्या
हं सून्यताज्ञानवज्र स्वभावात्मकोहं जापयाय. थन सउाग्र नीत्रयाय नस्वांथीवज्रवा

लाहि मन्तुमूर्त्ति ॐ नमश्वरी सूर्यंन्कावर्द्दानिमास्ति द्धि सिद्धि वलप्रदा एवं काल
नमस्मोस्मिनं सहज्ञान रुपि प्रज्ञ ज्ञानवल दहान मस्के श्रीवज्रजोगीन
नमोस्तु ते श्री वज्रवाराहि सर्व पापप्रनासनी मलविध्वंसनी देवी पूज्य त्वं फलदा
यनी गनपति च हस्तेवां विघ्नराज विनायक: यकदन्तं श्रीनत्रे श्री गनेना
यक सहस्रदल कमलं सोभनं कोलविनका पद्मपनिधी कत्री गच्छनमं
निर्मलं ज्ञानधर्मं विकनूकमत्रि धर्यां निर्मलं ज्ञानधर्मं विनूकमत्रि धर्जं पाउ

संबुद्धिनाए सकन रुवनधातु पाकवासी लोकनथं वसूधनानसदानू
त्वो देविज्ञान वर्त्तनी गुनूसाधनू पायलजीमी सिद्धि वलप्रदा जोगंभव
लायनमस्तु ते रक्तरवनख अलोनं जोगंभवन शुन्यकोवस्थ नस्त्वनी प्रनमाम्य ह
ॐ धर्मोधाय ॐ धर्मा हेतुप्रभवा हेतुनुषां यांनी नाथयवंवादि महाश्रवनं समाज्ञ
लोजा कि कयाउहञ्ज लेपा वानवाक ॐ वज्रसत्वसमय मनुपालय ॐ वज्रसत्व तेनो
न प्रतिथदिढोमहवसाकं नंसर्वकसूनूलकोमहव सर्वसिद्धिमप्रयछ सर्वकर्म

हूँ हूँ म विरूश्रीयंकृन् ह ह ह ह ह हा हे गवनवज्रमामयमक वज्रहवमहासमय
सत्वज्ञा थनस्हि क्रलक याडाथडा द्रूलासवूयाडालापादायाडामंगुलश्वय क्रिया
व सर्वमल्वाथं स्रिधिंगल्वाजथानुगापालवानं कल्यानं संगनं हवडा सर्वदा कार्य्य
सहलाहवडपा स्हिद्वपनभश्वनं लजलजजमस मंगुलयाग्रुस्वानकयाडादेव
यानविकीधंस्त्रय विधिधंथमनस्त्रय सवनघांपालवानांमंक लंहवंडसदास
र्वदाकार्य्यामहलाहवडपस्हिद्वपनभश्वनं लज२ क्रमस मंगुलयावग्रुस्वान

वडबंक्रासनयाडावाकपूजाडान वडआय देवपूजायाय॥ ॥शुभमस्तु
१०१२ सालस्मिन् शुद्ध आषाढ शुक्ल १४ बृहस्पतिवालस धनगुनू मंगुल पूलकेवा
यादिन लिखीपिनथ हिति क्वाथवाहालयावज्राचार्य्य नन्दकमानन्द न. स्वमन डा
नापसलननीवाहालयाजजमानमीलाधलाग बल्लयाथडानकावननि
त्य पूजायाय धनगुनू मंगुल पूलक दयकाहल शुभम्

श्रीगणेशानम